



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 109/2024

1. Ram Swaroop Son Of Shri Sohanlal, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District -Jaipur (Raj.).
2. Uttam Son Of Roshanlal, Resident Of Chitrakoot, Gandhidham, Vaishalinagar, Jaipur.

----Appellants

Versus

1. Shrimati Kesar First Wife Of Late Shri Prabhu, Second Wife Of Shri Ramu, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
2. Rameshwar Son Of Late Jagdish, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
3. Premnarayan Son Of Late Jagdish, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
4. Durgaprasad Son Of Late Jagdish, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
5. Sunil Son Of Late Jagdish, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
6. Laxman Son Of Late Jagdish, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
7. Shrimati Dhanni Daughter Of Late Jagdish, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
8. Lali Wife Of Late Jagdish, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
9. Ramu Son Of Late Gangaram, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
10. Hari Son Of Late Gangaram, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).
11. Mangalchand Son Of Late Bhura, Resident Of Kunda Ki Dhani, Sirsi, Tehsil And District-Jaipur (Raj.).

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sanjay Gangwar, Adv. Mr. Anurag Kumar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Kapil. Bardhar, Adv. Mr. Shashank Sharma, Adv.

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS****Judgment / Order****24/02/2026**

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा स्वीकार किया गया कि पक्षकारान के बीच राजीनामा हो चुका है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अब वे इस अपील को चलाना नहीं चाहते हैं तथा वापिस लेना चाहते हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा यह अपील वापिस लिए जाने से खारिज की जाती है।

स्थगन एवं अन्य कोई प्रार्थना—पत्र यदि लम्बित हों तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

विचारण अधिकरण का अभिलेख यदि इस न्यायालय को प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J